



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 05, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8830 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Deeg has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Deeg. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका डीग भरतपुर राज.

प्रोफार्म क

क्र. स.	वार्ड स.	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	हरबिलाश शर्मा से चलकर पश्चिम दिशा में चलते हुए लाला वाले कुण्डा को शामिल कर उत्तर की आबादी को लेते हुए रेलवे लाइन को पारकर छेमोरा तक वहा से उत्तर की ओर चलाकर पूर्वी आबादी को लेते हुए रेलवे स्टेशन तक व उसके क्वाटरों की आवादी को शामिल करते हुए सीधे भीमा फेक्ट्री को शामिल कर बच्चू ठाकूर मास्टर के मकान को शामिल करते हुए नारायण सैनी के मकान से होते हुए दक्षिण की तरफ चल कर मनीराम चुल्हैरा वाले से दाऊजी मुल्ला के मकान तक वहां से पश्चिम में मुडकर उत्तरी आबादी को शामिल कर ओमी मेडीकल वालों के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल कर सोहन लाल सैनी तक वहाँ से हरबिलाश शर्मा की चक्की तक।
2	2	प्रेम मेडीकल वाले के मकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए सियाराम की दुकानों तक वहाँ से जैन समाज की दुकानों को शामिल करते हुए बाबू बुद्वी की ऑयल मिल के आगे से जुगल भगवान की दुकानों तक वहाँ से उत्तर की ओर चलते हुए रमेश सुनार के मकान के पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए श्री मेडीकल की दुकान से मोहन पाराशर के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की आबादी को शामिल कर भौरों जी मन्दिर

		मूलचन्द गोवर्धन वालो के वहाँ से पश्चिम की तरफ मुडकर ठाकुरो की चौपाल तक वहाँ से दक्षिण की ओर मुडकर मिश्री पण्डित के मकान तक से सहारई वाले नानक मास्टर के मकान को शामिल कर सामने नाइयों के चौक की पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए दाऊजी मुल्ला की वगल वाली गली में चलकर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए सुरेश सैनी के मकान तक वहाँ से दक्षिण मुडकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए प्रेम मेडीकल वाले के मकान तक।
3	3	राजा मानसिंह समाधी की गली के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए वन्टी लाला की दुकान घीशाराम राधे की दुकान एवं पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए ओमी फरेटिया की दुकानों को शामिल सोनी मिशठान भण्डार गंजेश्वर महादेव मन्दिर को लेते हुए पश्चिम की तरफ मुडकर खण्डेलवाल घर्मशाला एवं उसके पीछे की समस्त आबादी को शामिल करते हुए किरोडी रोशन की दुकान के आगे से अशोक झालानी की दुकानों तक वहाँ से उत्तर की ओर मुडकर भीकचन्द जैन के मकान दुकान को शामिल कर धोवियो के चौक को लेते हुए सडक पार कर केवल पंजावी के मकान को शामिल कर उसके पीछे नाले को पार कर अरविन्द कॉलोनी में दक्षिण की तरफ चलते हुए दिनेश मोनी के मकान तक से पूर्व की ओर मुडकर मनीराम शर्मा के पुराने मकान एवं उत्तर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए कामां बाई पास रोड सडक पार कर संजय सक्सेना के मकान की बगल वाली गली में होकर सीधे चलते हुए उत्तरी आबादी को शामिल कर धोवियों एवं गुजरो के घरों को शामिल करते हुए चेतन्य गेस्ट हाउस को शामिल करते हुए मानसिंह समाधी तक।
4	4	रेलवे फाटक से दक्षिण की तरफ चलकर रेलवे लाइन के सहारे-सहारे चलकर पीतम दास के मन्दिर व कुण्डा के सामने शमशान को शामिल कर उत्तर की तरफ चलकर पश्चिमी की आबादी को शामिल करते हुए आदर्श विद्या मन्दिर को शामिल करते हुए पेट्रोल पम्प तक वहाँ से पूर्व की ओर मुडकर विमल वाटिका मेरिज होम के आगे से चलते हुए दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए रामस्वरूप मास्टर की दुकानों एवं मकान तक वहाँ से दक्षिण की तरफ कामां गेट स्कूल को लेकर महादेव मन्दिर से आगे अरविन्द कॉलोनी में शिवचरन सुरेश चन्द्र पंसारी के मकान को शामिल कर पश्चिम की आबादी को शामिल कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सडक पार कर रधुवीर सैनी के मकान को शामिल कर पूर्व की तरफ बढ़ते हुए दक्षिण की आबादी को शामिल कर कामा बाई पास पर रामभरोसी शर्मा के मकान तक से दक्षिण में मुडकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए प्रकाश के मकान तक से सामने सडक पार पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए नागेश्वर मन्दिर को शामिल कर गड पार करते हुए पीतम दास मन्दिर को शामिल कर करते हुए रेलवे फाटक तक।
5	5	लाल दास मन्दिर से शुरू होकर भगवान दास कुण्डा को शामिल कर दक्षिण दिशा में पूर्व व पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए मानसिंह यादव के प्लाट से पूर्व व पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मूला राम एएसआई के मकान को शामिल कर पूर्व व पश्चिम की समस्त आबादी को लेते हुए प्रकाश जनरल मर्चेंट डीग स्केप तक से पश्चिम में आखरी गड तक की आबादी को शामिल करते हुए वापिस प्रकाश जनरल मर्चेंट से पूर्व की ओर चल कर कामां बाई पास तक की उत्तर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए कामां बाई पास से उत्तर की ओर रतनसिंह महावर के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए जय पेलेश मैरिज होम से आगे चलते हुए रमेश चन्द्र के मकान से शर्मा

		एसटीडी को शामिल कर रमेश सैनी के मकान से लालदास मन्दिर की गली में पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिण की आबादी को शामिल कर गोपाल सैनी से रमेश सैनी के मकान से लालदास मन्दिर तक।
6	6	डा. मानसिंह के मकान दुकानों से पश्चिम की ओर चलते हुए नरेश बंसल के मकान को शामिल कर महावीर जाटव के मकान से होते हुए गोपाल बेंड के मकान दुकान को शामिल करते हुए लच्छो कोरेर वाले के मकान दुकान तक वहा से सीधे सामने पाये की दुकान पर से चलकर पूर्व दिशा में उसके ओमप्रकाश गोयल, सुभाश गोयल, बृजभूषण एडवोकेट, पूरन सुखालाल के मकानों को शामिल करते हुए नरेश पत्थर वाले के मकान को शामिल करते हुए चन्द्रमोहन शर्मा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी दिशा में तहसील पुस्तकाल, बालकिशन का मकान व पूरन मित्तल के मकान को शामिल कर महादेव मन्दिर को शामिल कर पश्चिम की आबादी को लेते हुए प्रताप के स्कूल व राजपुताना मैरिज होम को शामिल करते हुए मोतीमहल की समस्त आबादी को शामिल करते हुए यादराम सैनी के मकान से चलकर कामा रोड पुरानी अनाज मण्डी तक सडक पार कर डाल चन्द्र जी वालो की दुकान को शामिल कर उत्तरी दिशा में चलकर सुरेश ए.ओ. के मकान को शामिल कर उत्तरी दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुए कुलभूषण शर्मा के मकान तक वहाँ से दाये धूमकर मनोहरी शर्मा के मकान तक से पूर्व की ओर चलकर पोड़ श्याम के दक्षिण दिशा में मुडकर श्याम सुन्दर के मकान की समस्त पूर्वी आबादी को लेकर श्रीधर शर्मा के मकान से पूर्व दिशा में मुडकर पूरन चन्द्र शर्मा के मकान को शामिल कर आगे दारू कूटा मोहल्ला एवं अमोलक मुनीम के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी आबादी को शामिल कर मोनिका मथुरिया के मकान से चलते हुए खरगू (हरेन्द्र) जाट के वहा से सीबीआई बैंक, बैंक आफ बडौदा एवं बन्धा वालो के मकान दुकानों शामिल करते हुए डा. मानसिंह तक।
7	7	प्रेम मेडीकल स्टोर से पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिण कर आबादी को शामिल करते हुए सुरेश माथुर, राजेन्द्र यादव के मकानों को शामिल करते हुए सीधे चलकर सत्यनारायण के मन्दिर को शामिल कर एवं पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए सुरेश नाई व श्याम जाटव के मकान को शामिल कर रधुनाथ जमादार के मकान तक वहा से बच्चू सिंह मार्ग पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए परमा यादव मानसिंह यादव से हरिमोहन से मोहन मास्टर से मंगल पुजारी तक वहा से उत्तर में मुडकर ओम मेडीकल से आगे विश्णु तमोली व हरद्वारी पत्रकार के धरों को शामिल करते हुए प्रमोद होमयोपेथिक वाले के मकान व दुकान को शामिल कर अहीरों की चौपाल व हिन्दी पुस्तकालय से प्रेम मेडीकल तक।
8	8	श्री राजवीर यादव के मकान से ग्रामीण बैंक से पूर्व की तरफ चलते हुए किशन वीर यादव के मकान किशोर के मकान दुकान को शामिल करते हुए झण्डा तक से दक्षिण में घूमते हुए हीरासिंह की टाल को शामिल कर नगायच के मकान मे वहा से सिंह पोल गेट की तरफ सैनी समाज की धर्मशाला के लेकर दक्षिण की तरफ मुरारी ज्यूश वाले की दुकान वहा से पश्चिम की तरफ मुडकर दर्शन ठाकुर से मंगल मोटर्स, विजय पिंचर वाले की दुकान से उत्तर से चलकर आगे बबलू सैनी दुकान व आबादी को शामिल कर सामने पजाये के नाले आ रहा है रतन सैनी की दुकान वहाँ से सीधे पजाये में होकर सामने कामां बाई पास रोड पर जग्गो कोली के मकान को लेकर वहाँ से उत्तर में चलकर रमेश भट्ट व गिराज वरगी के मकान को लेकर पूर्व की ओर मुडकर बच्चू सिंह मार्ग पर चलते हुए दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए कपूर शर्मा (दिल्ली वाले डाक्टर) व

		वहा से दक्षिण में चलकर रतन सैनी की दुकान व मकान तक शामिल कर सामने दीपा सेट की दुकान को शामिल कर सडक पार तोता सोनगांव वाले के मकान व पूरन पत्रकार के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ चलते हुए दीपा सेट की मकान हुकम के मकान को शामिल कर महादेव मन्दिर को शामिल कर राजवीर यादव के मकान तक।
9	9	दीपक गुर्जर से दक्षिण में चलकर सैनी स्कूल को लेकर हरी टायर वाले के मकान वहा से पश्चिमी आबादी को शामिल कर पश्चिम में मुडकर पुरानी बर्फ फेक्ट्री को लेकर आगे डोरीलाल अध्यापक वाले क्षेत्र की आबादी को शामिल करते हुए नारायणा वाले के प्लाट को शामिल कर गली पार करके प्यारे कोली व दर्शन ठाकुर के मकानों को शामिल कर डीग स्केप की उत्तरी आबादी को शामिल कर कामां बाई पास रोड पर मक्खन मिस्त्री की दुकान व मकान तक वहा से उत्तर में धूम कर पूर्व की आबादी को शामिल कर कल्लन मिस्त्री तक पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुडकर बीच पजाये में होकर दक्षिण की आबादी को शामिल कर दीपक गुर्जर के मकान तक।
10	10	महलों के मुख्य द्वार सिंह पोल गेट से चलकर पूर्व की ओर पेट्रोल पम्प सत्येन्द्र वकील, रामविलास मास्टर की आबादी को लेते हुए दाऊजी मन्दिर वल्लो पंडित के मकानों को शामिल करते हुए कन्या स्कूल तक वहा से दक्षिण की तरफ मुडकर भोलेश्वर महादेव मन्दिर से डीएसपी कार्यालय को शामिल कर ब्रजराज पार्शद के मकान को शामिल करते हुए गली में चलते हुए भरतपुर रोड मुख्य मार्ग बजरिया चौराहे तक वहा से पश्चिम की तरफ चलते हुए सुरेश तिवारी से थानसिंह जेईन व समस्त पूर्वी उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए न्यायालय परिसर को लेते हुए महलो के पीछे से बस स्टेण्ड के आगे से चलते हुए जयसिंह सांवरवाल तक वहा से उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए डीग स्केप की दक्षिणी साइड से वंधा रोड पर मुडते हुए पश्चिमी में चलते हुए पुराने वंधा गेट की उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए वंधा रोड पर उत्तर में मुडते हुए पूर्व की आबादी को शामिल कर कामां बाई पास रोड तक से स्केप की दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए महलो के मेन रोड जग्गो की दुकान तक वहा से सामने सुक्खन मिश्री के मकान दुकान को शामिल करते हुए आगे सिंह पोल गेट महलों तक।
11	11	नये बस स्टेण्ड से दक्षिण की ओर चलते हुए कैलाश सिपाही, राजकीय महाविद्यालय को शामिल कर देव फोटो व पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए एक्सिस बैंक से महावीर पेट्रोल पम्प को लेते हुए नगर रोड की उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए बीएसएनएल कार्यालय से न्याययिक अधिकारियों के क्वाटरों को शामिल करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए पूर्व रीको क्षेत्र को शामिल करते हुए हुकम चौटाला के मकान को शामिल करते हुए उत्तर से कुटी को शामिल करते हुए गढ पर चलते हुए बंधा गेट तक गेट से पूर्व में मुडकर कामां बाई पास तक की समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए नवाब पार्शद के मकान को शामिल करते हुए हाई स्कूल से नये बस स्टेण्ड तक।
12	12	बिजली घर के पूर्वी उत्तरी छोर से के.डी.बाबू (भूपेन्द्र बंसल) के मकान को शामिल कर पश्चिम में मीरासीयों की आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण में मुडकर बुद्धा माली के मकान को शामिल कर दक्षिण में चलते हुये पश्चिम की समस्त आबादी को शामिल करते हुये सहारई रोड पर पहुंचकर नगर रोड की तरफ पश्चिम साईड की ओर चलते हुये उत्तर आबादी को शामिल कर नगर रोड पर तिराये पर राजेन्द्र जैन की टाल तक से उत्तर में घूमते हुये राजीव कोलोनी की

		<p>आबादी को शामिल कर इन्दर मास्टर की तरफ आबादी को लेकर पीडब्ल्यूडी से घूमकर वाटर वक्स वहाँ से कच्चा बाग से बिजली घर तक से सामने लीला टैन्ट हाउस की दुकान से पूर्व से चलते समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये राजेन्द्र वालोठिया के मकान रामलाल धोबी के मकान को शामिल कर नत्थी पंच के मकान से दक्षिण में मुडते हुये समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये गिराज सिंहल की दुकान से पश्चिम की तरफ मुडते हुये हनुमान मन्दिर को शामिल कर कमला के मकान गिराज सैनी के मकान को लेते हुये वहाँ की समस्त उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये गिरधर व किशन मास्टर के मकान को शामिल करते हुये हरीसिंह एडवोकेट साहब सिंह एडवोकेट के मकानों को शामिल कर सामने के.डी. बाबू (भूपेन्द्र बंसल) के मकानों तक।</p>
13	13	<p>रामप्रसाद की चक्की से पूर्व की दिशा सहारई रोड चलते हुये दक्षिण की आबादी को लेते हुये सन्तोष केशर माली के मकान के उत्तर में मुडकर दायीं तरफ की आबादी को लेते हुये यशपाल के मकान को लेते हुये पूर्व की ओर मुडकर मधुवना वाले मास्टर वाली समस्त दायीं आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर मुडकर चलते हुये सहारई रोड पर पहुंचकर दायीं तरफ मुडते हुये बहताना रोड पर सम्मिलित करते हुये देवी मन्दिर के तिराये से पश्चिम दिशा की आबादी को शामिल करते हुये रामजीलाल की कोठरी से पश्चिम दिशा की ओर रामबाग के कच्चे रास्ते चलते हुये उत्तर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये साई ऑफिस की तरफ जाते हुये दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुये दायें मुडकर नगर रोड पर चलकर कोतबाली को शामिल करते हुये वापिस बस स्टेण्ड की तरफ रोड की दक्षिण की आबादी गैस एजेन्सी, कृषि उपज मण्डी पुरानी चुंगी के पीछे की आबादी को शामिल करते हुये रामप्रसाद की चक्की तक।</p>
14	14	<p>कर्नल हरीसिंह की दुकान से शुरू होकर पूर्व की तरफ समुन्दर जाट के मकान व महेन्द्र जाट के मकानों को लेते गिरधारी सैनी के मकान वाली गली के दोनों साईड की आबादी को लेते हुये गिरधारी मन्दिर को शामिल करते हुये जगदीश कम्पाउण्डर के मकान से दक्षिण में मुडकर सोहनलाल के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुये पतरी के मकान व गली की आबादी को शामिल कर दुलीचन्द जाटव के मकान को शामिल करते देवीसिंह सैनी के मकान की उत्तरी दिशा गोपाल माली के मकान को शामिल करते हुये हनुमान मन्दिर की बगल वाली गली की आबादी को शामिल करते हुये नारायण मास्टर का मकान आगे पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण में सीधे चलते हुये सुखराम पटवारी के मकान से आगे देवीसिंह व लीला माली की दुकान की समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर कमला भगत के मकान शमशान भूमि सहारई रोड की उत्तरी आबादी को शामिल कर सीधे चलकर ट्रांसफार्मर से उत्तरी दिशा सहारई रोड उत्तर के हरी मास्टर कुंवरपाल के मकान को शामिल कर काजरा नर्सिंग होम व पूर्वी आबादी को शामिल कर चुन्नी सैनी के प्लाट से सीधे चलते हुये फजरू खॉ के मकान तक वहा से पूर्व दिशा में मुडकर समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए गली की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए द्वारका मेम्बर की दुकानों को लेते हुए दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए हरीसिंह कर्नल की दुकान तक।</p>
15	15	<p>कुवरसेन एडवोकेट की दुकानों से शुरू होकर दक्षिण की तरफ चलते हुए मानसिंह माली के मकान को लेते हुए खिल्ला हलवाई तक समस्त पूर्वी आबादी को लेते हुए सडक पार कर भूडा गेट बजरिया में सीधे चलते हुए समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए मुकेश मित्तल की दुकान</p>

		<p>व वगल वाली गली की दोनों तरफ समस्त आबादी को शामिल कर बजरिया में सीधे दक्षिण दिशा में चलते हुए शिव दयाल मास्टर के मकान व गजेन्द्र कपडे वाले की दुकान से नारायण मेम्बर के मकान को शामिल कर मान सिंह की दुकान व मकान को शामिल कर वहा से पूर्व की ओर मुडकर समस्त उत्तरी आबादी को लेते हुये सीधे चलते हुये नत्थी ढोला वालों के मकान से श्याम सैनी व ताराचन्द सैनी व रामदयाल सैनी के मकान को लेकर समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर वहाँ से मुडकर उत्तर की ओर चलकर बलवीर सैनी राधेश्याम बाबूलाल के मकानों को शामिल कर सीधे चलते हुये लालाराम के मकान से चतरू पण्डित के मकान को शामिल कर सीधे चलते हुये समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये हरीराम सैनी भगवान सिंह जाट के मकान से उम्मेद पटवारी के मकान से जाने वाली गली की दोनों साईड की आबादी को शामिल कर श्यामलाल चाहर के मकान को शामिल कर पूर्वी दिशा में मुडकर समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर राधारमन जाट के मकान शामिल कर मास्टर के प्लॉट को लेते हुये फत्ते रैवाडी के मकान को शामिल कर समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल कर बांकेबिहारी महिला महाविद्यालय को लेकर दिनेश शर्मा, मांगीलाल दुवे, सुरेश चेरमेन के मकान को लेते हुये बजरंग स्कूल के आगे चलते हुये महिला छात्रावास को शामिल कर भरतपुर रोड पार कर राम की बाडी को शामिल कर खाई के किनारे-किनारे महावीर माली की चक्की एवं शेड शम्भर के आस पास की समस्त आबादी को शामिल कर कुंवरसैन की दुकान तक।</p>
16	16	<p>ननगी सैनी के मकान व दुकान से शुरू होकर पूर्वी दिशा में चलते हुये पूरन सैनी, नत्थी ढोला वाले व मवासी सैनी की बाखर के समस्त मकानों को शामिल कर समस्त पश्चिमी आबादी को लेते हुये सीधे चलकर नीड चन्द गुर्जर के मकान से दक्षिण मुडकर सीधे चलते हुये समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल कर रमेश चाहर, रतना चाहर, केशवदेव वकील व नानक के मकान तक वहाँ से रोड से दक्षिण में सीधे चलकर फार्मैसी को शामिल कर रामसनेही के मकान, चूरामन के मकान से गढ पार कर चूरामन व सूखा मास्टर के मकान देवी मन्दिर के आस-पास की समस्त आबादी, चुन्नी माली के मकान, मांगी सैनी के मकान व गोलो जाटव के मकान तक वहाँ से मुडकर सीधे पूर्व में चलकर पतराम के मकान को लेते हुये देशावर के मकान से लटूर सैनी के पास वाली गली दोनों साईड की आबादी को शामिल कर किशन सैनी के मकान को लेते हुये समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर बच्चू, पपईया के मकान से उत्तर में मुडकर सीधे चलकर सूखा माली की चक्की व केसर माली के मकान व दुकान व अन्दर गली में पूरन खातीयों की चौपाल व श्याम लाला के मकान मालियों की चौपाल ठाकुरलाल का मकान हीरालाल के मकान सटटन के मकान को शामिल कर सीधे चलते हुये नारायन के मकान को शामिल कर रमन के मकान से चलते हुये समस्त पूर्वी आबादी को शामिल कर ननगी के मकान तक।</p>
17	17	<p>दक्खन देवी के प्लॉट से पूर्व दिशा की ओर चलकर रतना मास्टर व चोखे लाल के घर को शामिल करते हुये समस्त दक्षिण आबादी को लेते हुये भरतपुर रोड पुरानी चुंगी से मुडकर भरतपुर रोड सीधे चलकर 32 केबी को शामिल कर वापिस उत्तर दिशा में गढ पर चलकर पश्चिम दिशा में चलकर समस्त पूर्वी की आबादी को शामिल कर कच्चे दगरे से होकर मुन्शी सैनी के घर को शामिल करते हुये बालाजी जाट को शामिल कर पूर्व में चलकर कोकले लल्लू गुर्जर से किशन मास्टर के घर को शामिल कर अर्जुन रैवारी भीम सिंह व फत्ते रैवाडी के घर को शामिल करते हुये दक्खन देवी के प्लॉट तक।</p>

18	18	पौहपी पुजारी के मकान से भरतपुर रोड पुरानी चौकी चुंगी से पश्चिम की तरफ चलते हुये उत्तर की आबादी को शामिल करते हुये शेरसिंह बीडीओ के मकान को शामिल कर देवीसिंह सैनी एसटीडी को शामिल करते हुये किले की खाई तक पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये किले की खाई के किनारे किनारे मुरली मनोहर मन्दिर को शामिल करते हुये देवसौनिया चौक उत्तर दिशा में चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये पौहपी पुजारी तक।
19	19	गोविन्द हरीजन के घर से दक्षिण दिशा में चलकर गढ पर पहुंचकर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये भरतपुर रोड के मकानों को शामिल करते हुये भरतपुर रोड पुरानी चुंगी पहुंचकर उत्तर दिशा में चलते हुये पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये लाल कोठी के सामने का हिस्सा, पथवारी मन्दिर से मुरली मनोहर मन्दिर तक पहुंचकर उत्तर की आबादी को शामिल कर किले की खाई के किनारे, ठेकेदार मन्दिर पहुंचकर पूर्व दिशा में चलकर गिराज का मकान व राजपूत डीजे वाली आबादी शामिल कर भगवान टेलर से मुडकर गोविन्द हरीजन के घर तक।
20	20	गोवर्धन गेट गढ पर पूर्व दिशा में चलते हुये भगवान सिंह के घर को शामिल कर दक्षिण दिशा की आबादी को शामिल करते हुये अम्बेडकर भवन व हरीजन बस्ती मन्दिर पर पहुंचकर सौदान जाट के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुडकर श्याम हरीजन मकान कच्ची सडक पर चलते हुये समस्त हरीजन बस्ती को शामिल करते हुये सोरन हरीजन राजवीर व महेन्द्र जाट के मकान को शामिल कर भैरों जी की बगीची को शामिल कर गोवर्धन गेट टंकी शामिल कर गोवर्धन गेट गढ तक।
21	21	रदो बीएसएन वाले के घर से कच्ची सडक पर दक्षिण दिशा में चलते हुये पश्चिम दिशा की समस्त आबादी को लेते हुये रामलाल हरीजन के घर को शामिल करते हुये वहाँ से मुडकर मांगेलाल नट से उत्तर दिशा में चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये सौना चक्की के सामने का हिस्सा शामिल करते हुये रमेश के नोहरे तक नोहरे से पूर्व दिशा में मुडकर जानू के नौहरे तक दक्षिण दिशा की आबादी को शामिल कर वहाँ से मुडकर रदो बीएसएन वाले के घर कच्ची सडक तक।
22	22	पीतम कोली के मकान से पूर्व में चलकर फत्ते मास्टर घर तक दक्षिण की आबादी को शामिल कर उत्तर में मुडकर दाल मील को शामिल कर जगदीश मास्टर के मकान से पूर्व में चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल कर ठाकुर के चौक छिद्दा ठाकुर के घर से दक्षिण में मुडकर पश्चिम की समस्त आबादी को सौना चक्की को शामिल कर राजू लोधा के घर से मुडकर पश्चिम होकर बाबूलाल के घर को शामिल कर हरी वकील ललुआ से मुडकर उत्तर दिशा में चलकर किशन लम्बू से राजोरिया वाला चौक से मुडकर सईयद वाली गली से मुडकर पीतम कोली तक।
23	23	बजरिया मोड गोवर्धन रोड से पूर्व दिशा में चलकर समस्त दक्षिण आबादी को लेते हुये सुरेश मेठी के मकान से मुडकर राजोरिया चौक पहुंचकर समस्त पश्चिम आबादी को शामिल कर हीराशंकर दरोगा वाली गली व घर को शामिल कर वहाँ से मुडकर भगवत जाटव के मकान से दक्षिण में चलकर रामजीलाल को लेते हुये पूर्व में मुडकर भगवान सिंह के घर को लेते हुये दक्षिण में चलकर पश्चिम की आबादी को लेते हुये हिम्मत जाटव के मकान को शामिल कर पश्चिम दिशा में चलकर ठेकेदार के मन्दिर के सामने से किले की खाई के किनारे-किनारे धोबी मोड तक धोबी मोड से उत्तर दिशा में चलकर पूर्व की समस्त आबादी व जैन मन्दिर को शामिल कर बजरिया मोड तक।

24	24	शंकर साई की दुकान से दक्षिण दिशा में चलकर समस्त पश्चिम आबादी को लेते हुये धोबी मोड पर चन्द्रभान धोबी के मकान को शामिल कर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कन्हैया कोली के मकान से उत्तर की ओर चलकर वेदप्रकाश ठेकेदार के घर को शामिल कर नरेश पत्रकार के घर को शामिल कर समस्त पूर्व की आबादी को शामिल करते हुये मुरली पण्डित को शामिल कर व उत्तर दिशा में चलते हुये समस्त पूर्व की आबादी को शामिल कर रमेश गुर्जर के मकान को शामिल कर सीधे चलते हुये श्याम पण्डित के मकान से पूर्व की तरफ चलकर दक्षिण में मुडते हुये समस्त दक्षिण की आबादी को लेते हुये तोताराम कोली चक्की को हनुमान मौहल्ला (हनुमान मन्दिर) को शामिल करते हुये शंकर साई की दुकान तक।
25	25	टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बलवीर वकील के मकान से पश्चिम में चलकर समस्त उत्तरी आबादी को लेते हुये नई सडक पर मुडकर सीधे उत्तर दिशा में चलते हुये सोनगांव वाले इकलहरा वाले की लकडी व भीम आश्रम को शामिल कर समस्त पूर्व दिशा की आबादी को लेते हुये जगदीश वकील को शामिल कर अगरदत्ता बगीची के सामने हलवाई की दुकान से पूर्व में मुडकर महेश डॉक्टर व मन्नू ठाकुर चौक को शामिल कर बिजेन्द्र ठेकेदार और देवी मन्दिर की समस्त आबादी को लेते हुये चुन्नी ड्राईवर के मकान को लेते हुये नरेश के नोहरे को शामिल कर राजेन्द्र दुवे के घर को शामिल कर समस्त पश्चिम आबादी को लेते हुये रामखिलाडी, अतर, दुलारी के घर को शामिल करते हुये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बलवीर वकील तक।
26	26	छोटे खॉ की दुकान से नई सडक पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये समस्त पश्चिम आबादी को लेते हुये पोस्ट ऑफिस, पीएनबी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल व मैडीकल दुकान से पश्चिम मुडकर सरकारी हॉस्पिटल व गीता मन्दिर, गणेश मन्दिर पहुंचकर व वहाँ से उत्तर में मुडकर समस्त पूर्वी आबादी को लेते हुये मेला ग्राउण्ड झण्डा पर से मुडकर साईकिल वाले की दुकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुडकर समस्त पूर्वी आबादी को शामिल कर प्रताप टाल से आगे गली में चलकर समस्त पूर्वी आबादी को लेते हुये पंजाबी मौहल्ला सीताराम मन्दिर को शामिल कर छोटे खॉ की दुकान तक।
27	27	रज्जी की टाल से उत्तर दिशा में चलते हुये केदार सौनी को शामिल कर पूर्व की आबादी को लेते हुये पूर्व में मुडकर गेंदा जैन के मकान को शामिल करते हुये वहाँ से पूर्व में मुडकर समस्त दक्षिण आबादी व के.के. के मकान को लेकर छोटी गली में घुसकर पुराने पोस्ट ऑफिस को लेकर वहाँ से सडक पार कर प्यारे कलहार व टोपादास मन्दिर को लेते हुये गोपी बजाज को लेते हुये मेजर राना को शामिल कर अगरदत्ता बगीची से नई सडक पर चलकर यादवों को शामिल करते हुये समस्त पश्चिम आबादी को लेते हुये यादव के खाली प्लॉट से पश्चिम में मुडकर बलजीत के घर को शामिल कर समस्त उत्तर की आबादी लेते हुये मुरारी यादव को शामिल करते हुये मेले ग्राउण्ड की तरफ चलते हुये समस्त पश्चिम आबादी को शामिल करते हुये कबाडे वाले की दुकान से रज्जी की टाल से।
28	28	लक्ष्मण मन्दिर नन्दा वैध की दुकान से उत्तर दिशा टेलीपाडा में चलते हुये समस्त पूर्वी आबादी को लेते हुये दयाल वैध के मकान तक वहाँ से बायीं तरफ खादी आश्रम गली से समस्त दक्षिण आबादी को लेते हुये सिंघल के नोहरे से दक्षिण में मुडकर व द्वारिकाधीश मन्दिर को शामिल करते हुये बदनगढीया के मकान से पूर्व में चलकर समस्त दक्षिण आबादी को शामिल कर लाला वाली गली में मुडकर शिबो जैन के मकान को शामिल कर सडक पार कर बनिया पान

		वाले से घण्टाघर से चलकर समस्त दक्षिण आबादी को शामिल कर गोपाल हलवाई को शामिल कर नई सडक पर चलकर टोपादास के घर को शामिल कर वहाँ से मुडकर सरकारी स्कूल को लेते हुये पुरानी पोस्ट ऑफिस तक वहाँ से छोटी गली में मुडकर पश्चिम दिशा में चलकर ठठेरे चौक में चलकर समस्त उत्तर आबादी को शामिल कर वहाँ से दक्षिण मुडकर भट्टा वाले व नत्थी हलवाई को शामिल कर मुरानी सौनी व बुद्धी मूझवान वाले को शामिल कर कपूर टाल वाले गोदाम की साईड को लेते हुये वहाँ से मुडकर आदर्श स्कूल को शामिल कर समस्त उत्तर आबादी को शामिल कर पुरानी अनाज मण्डी में उत्तर की तरफ चलकर व्यापार समिति को शामिल कर लक्ष्मण मन्दिर नन्दा वैध की दुकान तक।
29	29	अगरदत्ता की बगीची के सामने लालाराम खाती की दुकानों से शुरू कर उत्तरी दिशा की ओर चलते हुये जैन ज्वैलर्स तक की समस्त पूर्वी आबादी लेते हुये वहाँ से पूर्व में मुडते हुये केशवदेव पंसारी के मकान, राजकुमार की दुकान तक की दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये वहाँ से दक्षिण में मुडकर रमन मास्टर की दुकान को शामिल कर रमेश चन्सौरिया अध्यापक के मकान को लेते हुये फूलचन्द नागर के मकान तक की पश्चिमी आबादी को लेते हुये वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ घूमकर चतरू पण्डित को लेते हुये धोबियों को शामिल करते हुये पीएसपी से नीचे उतर कर रामजीलाल पेशगार को शामिल करते हुये भगवानदास पालीवाल के मकान से लालाराम खाती की दुकान तक समस्त उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये।
30	30	किशोर जैन के मकान से शुरू कर पश्चिम दिशा में जैन मन्दिर को लेते हुये महेन्द्र डाक्टर तक समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल कर वहाँ से दक्षिण में चलकर रामजीलाल बैण्ड वाले के मकान तक पूर्वी आबादी को लेते हुये खेमा पंसारी, भूपसिंह की दुकानों तक उत्तरी आबादी को शामिल कर पूर्वी दिशा में चलते हुये लक्ष्मीनारायण मेठी के मकान से उत्तर दिशा में चलते हुये पश्चिम आबादी शामिल कर वहाँ से राजेन्द्र के मकान जानी ठाकुर के मकान से लेखराज जाटव के मकान को शामिल करते हुये राजीव गांधी पाठशाला से मुडकर पश्चिम की ओर चलते हुये बुद्धी भगत जी की बगीची के मकान को शामिल करते हुये मन्दो पकौडी वाले के मकान तक वहाँ से मुडकर दक्षिण में चलते हुये दीपचन्द आडतिया वीरेन्द्र जैन नगर पालिका वाले के सामने किशोर जैन तक।
31	31	गोवर्धन गेट प्रताप ठाकुर का वाड से पूर्व की ओर चलकर सूबेदार से उत्तरी दिशा की ओर मुडकर लालो खाती के मकान से श्याम वैद्य व मदन ठाकुर, ठाकुरों की चौपाल से पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए चन्द्रपाल ठाकुर, लल्लू ठाकुर, रामप्रसाद प्रताप बाडा तक। गांधी अध्ययन केन्द्र से पूर्व की ओर चलकर सैयद की उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए तेज सिंह ठाकुर को शामिल कर गोपाल झाईवर, श्याम पण्डित, गोविन्द मास्टर से पूर्व की ओर नौरंग धीमर का मकान, जगन जोगी के मकान से दक्षिण की ओर श्यामलाल जोगी, बीधा जाट व रामवीर जाट, शिवराम मास्टर के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए श्यामू ठाकुर, ठाकुरों की चौपाल से मणीराम ठाकुर से समस्त ठाकुरों की आबादी को शामिल कर बालगोविन्द से झमेला सिगलीगर से रमाकान्त बकील के मकान व समस्त धीमर, समस्त जोगी, ठाकुरों के मकान को शामिल कर वापिस सैयद से होकर गाँधी अध्ययन केन्द्र तक।
32	32	रामस्वरूप धीमर से पूर्व दिशा की ओर चलकर जाहरपीर मन्दिर से पश्चिम दिशा की ओर चलकर जाटव समस्त जाटव वस्ती से गडरिया परिवारों को लेते हुए से दक्षिण दिशा में

		गिराज माली से मैनेजर, रम्बो बजाज की बगीची से पूर्व की ओर धोबियों को शामिल कर दक्षिण की ओर कुम्हारों से होकर रमन मास्टर तक पूर्व की ओर रमेश ठाकुर वाली गली में होकर लालू ठाकुर के मकान से पूर्व की ओर समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर पीतम ठाकुर से पूर्व की ओर आनन्दा धीमर से रामस्वरूप धीमर से अग्निशमन केन्द्र को शामिल कर रामप्रसाद ठाकुर तक।
33	33	जग्गो पंसारी की दुकान से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर सीधे चलते हुए रमेश नाई के मकान तक वहां की समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल कर रमेश नाई के सामने वाली गली पूर्व दिश की ओर चलकर श्याम टीकू की दुकान को शामिल कर चिरमोली कोली के मकान को शामिल कर वहां की समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर विजय मास्टर बघेले के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आगर कॉलोनी को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नाले के सहारे सहारे तेजा सैनी के मकान को शामिल कर रूपसिंह सैनी के मकान को शामिल कर प्रीतम मुनीम के मकान तक वहां की समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर चलकर कल्लू सैनी के मकान तक वहां से दक्षिण दिशा की ओर मुडकर धर्म सिंह सैनी के मकान को शामिल कर वहां की समस्त पूर्वी आबादी को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर चलकर रमेश मास्टर के मकान को लेते हुए वहां की समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल कर भैरों मन्दिर को शामिल कर कृष्णा टैण्ट वाले की दुकान से दक्षिण की ओर मुडकर सीधे चलते हुए रामदयाल के मकान को शामिल कर दाऊजी मन्दिर को शामिल कर खेडा वालों के मकान तक की समस्त पूर्वी आबादी को शामिल कर पूर्व दिशा की ओर मुडकर सीधे चलकर वहां की समस्त उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए जग्गो पंसारी की दुकान तक।
34	34	उदयराम जाटव के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलकर केसव देव मैम्बर की चक्की तक पूर्वी आवादी को शामिल कर केसव देव के मकान के सहारे भूरी सिंह कल्लू सैनी के मकान वाली गली में उत्तर की आवादी को शामिल कर करते हुए बिरजी के गौत को शामिल करते हुए दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए दिल्ली गेट से दक्षिण दिशा में चलकर समस्त पूर्वी आवादी को शामिल करते हुए उदय राम जाटव तक।
35	35	अमित नगर पालिका वाले के मकान से उत्तर में चलकर रकौला गुर्जर चौपाल व महमदपुरिया किस्सी एवं कोलिओं को शामिल कर उत्तर में कुवरपाल ठाकुर की गली की दोनों तरफों को शामिल करते हुए झरिया पटवारी तक गढ पर चलकर राजराजेश्वर मन्दिर व सैनीयों को शामिल करते हुए गढ पर चल कर दिल्ली दरवाजे के सामने होते हुए हरकिशन बघेले व समस्त बघेलो के घरों को शामिल कर समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल कर सियाराम गुर्जर के मकान तक वहां से दक्षिण में चलकर नत्थी जाटव सियाराम मन्दिर रतन जाटव मदनमोहन जाटव के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में चलकर राजवीर गुर्जर के मकान से मुडकर अमित नगर पालिका वाले के मकान तक।
36	36	घण्टाघर से उत्तर दिशा में चलते हुये भगवान डाक्टर की दुकान से महादेव मन्दिर से मुडकर पूर्व दिशा में निहाल सिंह तहसीलदार के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा की ओर कमलेश पूर्व पार्श्व के मकान से पूर्व दिशा की ओर प्रहलाद सैनी के मकान तक प्रेम भारती स्कूल को शामिल कर समस्त दक्षिणी आबादी को शामिल कर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये यादवों के मकान, लीले ठाकुर के मकान को लेते हुये नानक जैन तक की समस्त पश्चिम आबादी को शामिल कर

		वहाँ से पश्चिम में चलते हुये मनवीर जैन के मकान को शामिल कर गौरी पान वाले की दुकान को शामिल करते हुये घण्टाघर की समस्त उत्तरी आबादी को शामिल कर घण्टाघर तक।
37	37	चेला पंजाबी की दुकान से सीधे उत्तर में चलते हुये किरन कॉन्वेन्ट स्कूल की साईड रमेश जैन देवी मन्दिर राजू अकबरपूरिया के मकान तक समस्त पूर्वी आबादी को सम्मिलित करते हुये गढ से पूर्व में सीधे चलते हुये जग्गो गुर्जर के मकान को शामिल करते हुये पिल्ली कुम्हार के मकान से दक्षिण में चलते हुये गली के दोनों साईडों को शामिल करते हुये काडू के मकान तक वहाँ से पुनः पूर्व में चलकर पदम गुर्जर के मकान तक गली के दोनों साईड की आबादी को शामिल करते हुये पदम गुर्जर से छत्रपाल गुर्जर, समय सिंह वकील के मकान को लेते हुए घण्टाघर तक पश्चिम की समस्त आबादी को शामिल कर घण्टाघर से चेला पंजाबी की दुकान तक उत्तर की समस्त आबादी को शामिल करते हुये चेला पंजाबी तक।
38	38	द्वारिकाधीश की गली में सिंघल के वाडे से शुरू होकर पूर्व दिशा में चलते हुए आर्य समाज की गली की समस्त उत्तरी आबादी को लेते हुए सुरेश वकील के घर को शामिल कर उत्तर में मुडकर बोहरे जी की हवेली, जीतो पण्डित के घर को लेते हुए भूपसिंह के मकान को लेते हुए गढ तक की समस्त पश्चिम आबादी को शामिल करते हुए गढ पर पश्चिम में चलते हुए उपेन्द्र शर्मा के मकान को लेते हुए महादेव मन्दिर के सामने से दक्षिण में मुडकर कल्लू गुर्जर के मकान को लेते हुए वहाँ से पश्चिम में मुडकर अनिल एडवोकेट के मकान के सामने तक की समस्त दक्षिण आबादी को लेते हुए बूटा पंजाबी के मकान तक की पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए वहाँ से पश्चिम में मुडकर केदार पंसार के मकान को लेते हुए गली में चलते हुए ज्ञानचन्द चावला के सामने वाले समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए तेलीपाडा भैरो मन्दिर के सामने विपती हलवाई के मकान की साईड को लेते हुए घनश्याम सहारई वाले के मकान तक की समस्त पूर्वी आबादी को लेकर वहाँ से पूर्व में गली में मुडकर खादी आश्रम गली में गुसाई जी के मकान से रमन ठठेरे तक की समस्त उत्तर आबादी को लेते हुए वहाँ से दक्षिण में मुडकर द्वारकाधीश मन्दिर के सामने सिंघल के वाडे तक।
39	39	होती जाटव के मकान से उत्तर में चलते हुए दोनो साईड की आबादी को शामिल करते हुए ओमी छीतर के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए डालचन्द के मकान तक, मुरारी हरो के मकान से पश्चिम में चलते हुए टेलर छज्जू के मकान से समस्त उत्तर आबादी को लेते हुए गढ से पूर्व में चलते हुए महादेव मन्दिर तक, दक्षिण आबादी को लेते हुए, दक्षिण में मुडकर मोहनश्याम गुर्जर, नरेश तक की समस्त पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए, पश्चिम में मुडकर अनिल एडवोकेट के मकान तक, वहाँ से दक्षिण में चलते हुए प्रवीन पंजाबी के मकान तक पश्चिम आबादी को शामिल करते हुए पश्चिम में मुडकर महेन्दी सेठी के मकान से पश्चिम में मुडकर होती जाटव के मकान तक।
40	40	श्याम गुप्ता के मकान से पूरब में चलते हुए लोकेश गंधी के मकान तक समस्त उत्तर आबादी को लेते हुए वहाँ से उत्तर दिशा चलते अशोक तम्बाकू वाले के मकान तक वहाँ पूर्व में चलते सुरेश तेली के मकान से पश्चिम में चलते हुए छीतर पण्डित मकान तक वहाँ उत्तर में

	<p>चलते हुए चुनीलाल झाईवर के मकान तक दोनों तरफ की आबादी को लेते हुए वहां से पूर्व में चलते हुए दिनेश के मकान तक उत्तरी आबादी को लेते हुए उत्तर में चलते हुए रामसिंह के मकान तक वहां पश्चिम में टेकचन्द जाटव के मकान तक वहां से जाटव बगीची की ओर चलते समस्त पश्चिम आबादी व तलैया की आबादी को शामिल कर भीमा फैक्ट्री के सामने भगवान दास व नारायण सैनी के मकान को शामिल कर दक्षिण चलते हुए समस्त पूर्वी आबादी को शामिल कर दक्षिण चलते हुए समस्त पूर्वी आबादी को शामिल श्याम गुप्ता के घर तक।</p>
--	---

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका डीग

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।